

पारिवारिक विवरण / FAMILY DETAILS

प्रमाणित किया जाता है कि (नाम).....(रेजी /कोर) के.....
 नं.....रैंक.....नाम.....की
 मृत्यु.....(तारीख) को हुई और उसके बाद परिवार में निम्नलिखित सदस्य जीवित है/थे।

This is to certify thatRank.....
 Name.....of.....
 died on.....(date) and he has/had the following members :

	नाम Name	उम्र Age	अगर मृत्यु हो, मृत्यु की तारीख Date of death if not alive
(क)	पिता श्री.....
(a)	Father Shri		
(ख)	माता श्रीमती.....
(b)	Mother Smt.		
(ग)	विधवा श्रीमती.....
(c)	Widow Smt.		
(घ)	बच्चे दत्तक बच्चो सहित.....
(d)	Children including adopted children		

	नाम/Name	लिंग/Sex	जन्म तिथि/Date of Birth

(च) भाई/Brothers	नाम/Name	उम्र/Age	Marital Status

(छ) बहिने/Sister	उम्र/Age	Marital Status

टिप्पणी :- अगर ऊपर क्रम सं० (क) (ख) (ग) से किसी सदस्य की पहले मृत्यु हो चुकी है तो परिवार के उस सदस्य का नाम दे।

Note :- Gave names of family members, If any, members at Serial (a) (b) (c) above had Predecabed.

परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर
 (Signature of Head of the Family)

गवाह/Witness

(1) हस्ताक्षर.....

Signature

नाम और पता.....

Name & Address

.....

.....

(2) हस्ताक्षर.....

Signature

नाम और पता.....

Name & Address

.....

.....

प्रमाणित किया जाता है कि मृतक श्री.....

आर्मी नं.....के लिए विवरण की

जांच कर की गई है और सत्य पाया गया है।

Certified that the details of family of late

Shri.....

Army No.....) given above

have been verified and are true.

.....

(गांव के सरपंच के हस्ताक्षर)

(Signature of Villages Sarpanch)

नाम और पता.....

Name & Address

.....

.....

.....

(मोहर/ SEAL)

स्त्यापित और प्रमाणित / VERIFIED & ATTESTED

.....

(मोहर/ SEAL)

.....

(सचिव जिला सैनिक बोर्ड)

(Secretary Zila Sainik Board)